

दियो ज्यादा बढो तक बूली रहें और अगर हो सके तो सारे दिन बूली रहें जिस से कि जब बीका मिले तब लोग जा कर दूध ले सकें ?

Shri Annasahib Shinde: I do not think the general suggestion of the hon Member can really be implemented because it would increase the overall cost of administration of the DMS. As regards the timely delivery of milk that suggestion can be looked into.

Shri Jyotirmoy Basu: Has the DMS a case in plant? If not, will Government consider examining the possibility of bringing one for the purpose of utilising the surplus milk?

Shri Annasahib Shinde: It is a good suggestion We shall examine it

श्री अचल सिंह: क्या मंत्री महादय बतलायेंगे कि स्किमड मिल्क का कितना परसेन्टेज है और कितना नाली में बहाया जाता है ?

Shri Annasahib Shinde: The percentage of sour milk is less than 3. It is mainly in summer. Most of it, 60 to 70 per cent, is used for conversion into butter, ghee etc

श्री कंबर लाल गुप्त: सदियों के दिनों में 30 हजार मन दूध बहाया गया है। आप इस की गन्कवायरी कीजिये।

Mr. Speaker: Next question

अवमूल्यन के बाद आयातित अनाज के मूल्यों में वृद्धि

+
*135। श्री ए० च० सामन्त .
श्री अ० कु० किष्कु .
श्री श० ना० साहूती .
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या साहू तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) अवमूल्यन के कारण आयातित

गेहू तथा अन्य अनाजों के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है तथा क्या इनसे उप-भोक्ताओं द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले अनाजों के मूल्य भी बढ़े हैं और यदि हा, तो कितने प्रतिशत ,

(ख) क्या अनाज का निर्यात करने वाले देशों में अवमूल्यन के पश्चात् आयातित गेहू तथा अन्य अनाजों के मूल्यों में कुछ छूट दी है अथवा उनमें कुछ कमी की है और यदि हा तो ऐसे देश कौन-कौन से हैं तथा उन्होंने कितने प्रतिशत छूट दी है ,

(ग) अवमूल्यन से पहले तथा उसके बाद अनाज आयात करने पर कितना धन व्यय किया गया , और

(घ) क्या व्यय में वृद्धि अवमूल्यन के कारण हुई है अथवा अतिव अनाज आयात करने के कारण ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Consequent on devaluation, the C&F value of imported foodgrains increased by 57.5 per cent in the case of wheat and milo. The increase in the case of rice was about 61.1 per cent which was accounted for partly by the increase in the international price of rice. The incidence of these increases did not fall on the consumers as the issue prices of these foodgrains were not increased immediately after devaluation.

(b) No, Sir

(c) The expenditure on cost and freight of imported foodgrains during the five months immediately before devaluation was approximately Rs 159.73 crores and during the five months after devaluation approximately Rs 260.14 crores

(d) The increase in the expenditure referred to in (c) above was accounted for mainly by devaluation but

partly also by increase in the international prices of rice and a marginal increase in the quantity imported.

Shri S. C. Samanta: Is it a fact that the international wheat agreement is valid up to 31st July next, and may I know whether a fresh agreement has been entered into, if so, what is the price structure, and whether the prices will be stable and equitable?

Shri Annasaheb Shinde: The negotiations for further agreements are on The supply mission and the embassy has taken up these matters with the concerned Governments. As far as the price is concerned, as I had already explained to the House, we purchase these foodgrains by inviting open tenders.

Shri S. C. Samanta: May I know the provisional import figure for the remaining period of the fourth plan year by year?

Shri Annasaheb Shinde: For instance, last year we imported about 10.4 million tonnes of foodgrains, and this year perhaps the figure may reach 9 or 9.5 million. For the previous figures I require notice.

Shri S. C. Samanta: I asked for the remaining period of the fourth plan, whether there is any provisional figure.

Shri Annasaheb Shinde: In fact, we are trying to see that our indigenous production goes up, so that our dependence on imports is reduced to a considerable extent.

श्री यशपाल सिंह: जो कुछ हुआ सो हुआ। क्या सरकार को पता है कि इस मामले में आज जनता कितनी परेशान है और देहात में जहाँ पर गेहूँ पैदा होता है वहाँ पर 55 और 60 स० मन गेहूँ बिक रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार यह बतला सकती है कि कब तक इस स्थिति में परिवर्तन होकर जनता को सन्तोख हो जायेगा और

उस की बख्तरियात पूरी हो सकेगी या यह इसी तरह से चलता रहेगा ?

Shri Annasaheb Shinde: As far as the imported foodgrains are concerned, we are issuing at a very concessional rate to all the State Governments, are that also at the destinations indicated by the State Governments. The price for wheat is Rs 55 per quintal, for milo Rs 40 per quintal and for rice, from 15th July, 1967 onwards it is uniformly Rs. 80 per quintal.

श्रीमती जयदेव शाह: क्या यह बात सही है कि कई जगहों पर जो इम्पोर्टेड व्हीट फेअर प्राइस शाप में दिया जाता है, उन में व्यापारी ककड़ और मिट्टी मिला कर बेचते हैं, इस के कारण जो चीज पहले से महंगी मिलती है वह और भी महंगी पड़ गई है ?

Shri Annasaheb Shinde: The State Governments should really look into this problem.

श्री प्रकाशबीर शास्त्री: आयातित गेहूँ सही मात्रा में और सस्ते मूल्य पर उप-भाक्ताओं को उपलब्ध हो सके इस के लिये क्या सरकार के सामने इस प्रकार का भी कोई सुझाव विचार के लिये आया है कि जो समर्थ लोग हैं वह खुले बाजार से गेहूँ या अन्य खाद्यान्न खरीदे ? जैसे दिल्ली में यह है उसी तरह से देश के दूसरे शहरों के लिये भी इस तरह की किसी योजना पर विचार किया जा रहा है ?

Shri Annasaheb Shinde: I do not think there is any such proposal. So far as Delhi is concerned it was examined, and Delhi citizens are allowed to purchase indigenous wheat now in the Delhi centrally administered areas.

Shri E. K. Nayanar: The hon Minister has replied that the increase in price has not affected the consumer. After devaluation last June, government increased three times the price

of wheat and when the Kerala government said after March 1967 that they are not prepared to increase the price of wheat, they were made to incur a loss of Rs 6 crores. They appealed to the Centre to give aid to that extent. The Minister replies here that the price increase after devaluation is not passed on to consumers. It is not correct. I want to know why the Minister replied like that.

Shri Annasahib Shinde. I have not stated that there was absolutely no increase. I have actually given the facts.

Shri E. K. Nayanar. Government had withdrawn the subsidy which was being given to Kerala. The price increased after devaluation. Is it a fact or not?

Shri Indrajit Gupta. In view of the fact that the bulk of wheat imports is from America, may I know whether, in recent months, there has been any firm decision by the US government communicated to us that in future the imports of wheat from that country will not be on what is at present called a concessional basis payment allowed in rupees as under the old PL 480 but will have to be made in future in dollar? What is the position now and what is likely to be its impact on us especially after devaluation?

Shri Annasahib Shinde. All these details of the new agreement with the United States are known to the House, a copy of these had been placed in the Parliament library. Even the new food for peace Act wants payment in dollars after some years, not immediately, though some part of it has to be in dollars.

Shri Krishna Kumar Chatterjee. In view of the answer given by the hon. Minister just now, the import position may further worsen because of heavy rise in prices. So, the point is that the price has risen not only due to devaluation. The Minister has told the House that the international wheat price has increased. Is the hon. Minis-

ter prepared to say that production of wheat in the country should be maximised immediately?

Mr Speaker. Everybody agrees with you. I do not think the Minister disagrees with it. He completely agrees with it. (Interruptions)

Shri Krishna Kumar Chatterjee. I wanted to know what effective steps are the government contemplating.

श्री जार्ज फरेन्ग्बीच. अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि अभी अन्त मन्त्रालय के सचिव, श्री डियाज, जो आस्ट्रेलिया गये थे, तो क्या वहाँ की सरकार से कुछ गेहूँ मागने के बारे में बातचीत हुई है, यदि हाँ, तो सरकार वहाँ से कितना गेहूँ और किस दाम पर लाने की व्यवस्था कर रही है ?

Shri Annasahib Shinde. The Minister is making some statement about the gift of wheat by the Australian government.

श्री हुकम चन्द कछवाय. मैं यह जानना चाहता हूँ कि पिछले दो सालों में कितना अनाज विदेशों से हमारे देश में आया है, और उस में से कितना अनाज सड़ गया है, बेकार हो गया है, जिस की वजह से उस के मूल्य बढ़ गए हैं।

Mr Speaker. It does not arise at all.

Shri Annasahib Shinde. There is some other starred question which will cover this point, if it is reached.

श्री ओ० प्र० त्यागी. जब खाद्य हमारी नेशनल समस्या है तो सरकार इस को नेशनल लेवल पर हल करने का प्रयत्न क्यों नहीं करती है और उसने जोन बना कर कन्ट्रोल आदि का अधिकार स्टेट्स को क्यों दिया हुआ है ?

Shri Annasahib Shinde. About the national approach, I entirely agree with the hon. Member. What exactly

are the measures to be taken is a matter of detail. Perhaps the hon. Member may have to put a separate question.

Mr. Speaker: Shri Prakash Vir Shastri.

Shri Prakash Vir Shastri: Question No 1354

Shri Jagannath Rao Joshi: The other question on sugar may also be taken up along with this.

Mr. Speaker: There may be a dozen questions on sugar, but it does not mean that they should be attached to this question.

चीनी की मिलों का बन्द होना

+

*1354 श्री प्रकाशवीर शास्त्री
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि

(क) क्या चीनी की मिलों को पर्याप्त मात्रा में गन्ना उपलब्ध न होने के कारण कुछ चीनी मिलों का आगामी वर्ष में भी बन्द रहने की संभावना है,

(ख) यदि हा, तो इसके परिणाम-स्वरूप अनुमानत कितने श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे, और

(ग) चीनी की अत्यधिक कमी को दृष्टि में रखत हुए सरकार का इस संबंध में क्या कार्रवाई का विचार है?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा स्त्रकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्रभा साहिब सिन्घे) (क) और (ख) चीनी कारखानों का चलना अथवा बंद होना उनसे पास वेरने के लिये गन्ना के उपलब्धि

पर निर्भर करता है। इस अवस्था में अगले मौसम के लिये इस संबंध में अभी कोई पक्का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तथापि राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश में सभी पांच चीनी कारखानों और महाराष्ट्र में एक कारखाना काम नहीं करेगा और दक्षिण बिहार में चार चीनी कारखाने और उत्तरी बिहार में पांच चीनी कारखाने अगले मौसम में काम न करने की सोच रहे हैं। यदि सभी उल्लिखित कारखाने बन्द रहते हैं तो उससे अनुमानत 11,000 कमचारियों पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) 1967-68 में अधिक से अधिक चीनी का उत्पादन करने के उपायों पर राज्य सरकारों के परामर्श से विचार हो रहा है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री - मंत्री महोदय ने अभी कुछ राज्यों में चीनी मिलों का काम बन्द रहने के विषय में जानकारी दी है।

या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश में भी लगभग तीस छोटी मिलों के बन्द होने की संभावना है और क्या उन मिल मालिकों ने केंद्रीय सरकार को रिप्रेजेंटेशन द कर यह सुझाव दिया है कि गन्ने की कीमत बढ़ा दी जाय और चीनी पर सन्शुल्क हटा दिया जाय यदि हा, तो सरकार का उस पर क्या प्रतिक्रिया है।

Shri Annasahib Shinde: We contacted the Uttar Pradesh Government and the Uttar Pradesh Government has communicated to us that though the duration of work in factories as a result of less availability of cane might be less, no factory is likely to be closed. That is the information supplied by the Uttar Pradesh Government. But some factories have brought to our notice that there is likely to be considerable difficulty in the availability of cane in the coming season and they are afraid of a closure. The Uttar Pradesh Government has also indicated to us that there has been a steep fall in cane acreages, from 25